



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1059) पटना, सोमवार, 4 नवम्बर 2024

वित्त विभाग
(भविष्य निधि निदेशालय)

कार्यालय आदेश
18 अक्टूबर 2024

सं० GPF-01-255/2023—6421—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—11/आ0 नि0—03/2023 (खण्ड) सा0प्र0—19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत दिनांक 18.10.2024 को आहूत भविष्य निधि निदेशालय के स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भविष्य निधि निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ जिला भविष्य निधि कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित निम्नवर्गीय लिपिक को उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान (वेतन स्तर— 4) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:—

| क्रम. | सरकारी सेवक का नाम | वरीयता क्रमांक | वर्तमान पदस्थापन |
|-------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री नितेश कुमार | 82/23 | जिला भविष्य निधि कार्यालय, नालन्दा |
| 2. | श्री सन्नी आनन्द | 92/23 | भविष्य निधि निदेशालय, पटना |

2. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. सभी संबंधित उच्चवर्गीय लिपिक प्रोन्नत पद पर अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे तथा योगदान की सूचना भविष्य निधि निदेशालय को उनके पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

4. उपरोक्त कर्मियों में से किसी कर्म के अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार हेतु आवश्यक अर्हता नहीं होने का तथ्य भविष्य में परिलक्षित होने पर उक्त कर्म को उच्चतर पद पर दी गयी अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के आदेश को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से वापस लिया जा सकेगा।

5. निम्नवर्गीय लिपिकों को उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

6. यह सशर्त प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस.एल.पी.(सी0) सं0 29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

आदेश से,
जय प्रकाश सिंह,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1059-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>